

नाम

131

324 (FF)

2022

गणित

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 100

निर्देश :

- प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।
- इस प्रश्न-पत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।
- प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
- प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अंत तक करते जाइए।
- जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए।

1. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध

$$R = \{(L_1, L_2) : L_1, L_2 \text{ पर लम्ब है}\}$$

समुच्चय L में परिभाषित है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए :

- R स्वतुल्य है
- R सममित है
- R संक्रामक है
- इनमें से कोई नहीं

1

(ख) यदि आव्यूह A और B के क्रम (कोटि) क्रमशः $m \times n$ और $n \times p$ हैं, तो AB का क्रम है :

1

- $p \times m$
- $n \times m$
- $m \times p$
- इनमें से कोई नहीं

(ग) अवकल समीकरण

$$xy \frac{d^2y}{dx^2} + x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - y \frac{dy}{dx} = 2$$

की घात है :

1

- 0
- 1
- 2
- 3

(घ) व्यंजक $\hat{i} \cdot \hat{i} - \hat{j} \cdot \hat{j} + \hat{k} \cdot \hat{k}$ का मान है :

1

- 0
- 1
- 2
- 3

(इ) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$ का मान होगा :

1

- (i) 0 (ii) $\frac{\pi}{2}$
(iii) $\frac{\pi}{4}$ (iv) $\frac{\pi}{8}$

2. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) फलन $f: R \rightarrow R$, $f(x) = x^2 \forall x \in R$ द्वारा परिभाषित है, तो फलन f है :

1

- (i) एकैकी आच्छादक
(ii) बहु-एक आच्छादक
(iii) एकैकी, किन्तु आच्छादक नहीं
(iv) न तो एकैकी और न ही आच्छादक

(ख) यदि $f: R \rightarrow R$ जहाँ $f(x) = \cos x$ और $g: R \rightarrow R$ जहाँ $g(x) = x^2$, तो सिद्ध कीजिए कि $f \circ g \neq g \circ f$.

1

(ग) $\cot^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ का मुख्य मान होगा :

1

- (i) $\frac{\pi}{3}$ (ii) $\frac{\pi}{6}$
(iii) $\frac{2\pi}{3}$ (iv) इनमें से कोई नहीं

(घ) सिद्ध कीजिए कि फलन $f(x) = |x|$, $x = 0$ पर संतत है ।

1

(इ) यदि ΔABC के शीर्ष $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ और $C(2, 3, 1)$ हों, तो ΔABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है :

1

- (i) $\frac{\sqrt{21}}{2}$ (ii) $\frac{\sqrt{22}}{3}$
(iii) $\frac{\sqrt{23}}{3}$ (iv) इनमें से कोई नहीं

3. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) $y - x \frac{dy}{dx} = a \left(y^2 + \frac{dy}{dx} \right)$ को हल कीजिए ।

2

(ख) यदि $f: A \rightarrow B$ तथा $g: B \rightarrow C$ एकैकी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $g \circ f: A \rightarrow C$ भी एकैकी होगा ।

2

(ग) यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, तो

AB तथा BA का मान ज्ञात कीजिए ।

2

(घ) सिद्ध कीजिए कि $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$.

2

4. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) यदि ΔABC के शीर्ष $A(2, -6)$, $B(5, 4)$, $C(k, 4)$ और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि k का मान 12, -2 होगा । 2

(ख) यदि $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए । 2

(ग) सारणिक $\begin{vmatrix} 1 & x & yz \\ 1 & y & zx \\ 1 & z & xy \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात कीजिए । 2

(घ) सिद्ध कीजिए कि दिए हुए सम्पूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लम्ब-वृत्तीय शंकु का अर्ध-शीर्ष कोण $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ होता है । 2

5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :

(क) दो वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$ एवं $(x-2)^2 + y^2 = 4$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए । 5

(ख) समाकल $\int \frac{x^4 dx}{(x-1)(x^2+1)}$ ज्ञात कीजिए । 5

(ग) हल कीजिए : 5

$$(1+y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$$

(घ) दर्शाइ कि :

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

(ङ) आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ को एक सममित

आव्यूह तथा एक विषम-सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए । 5

(च) सिद्ध कीजिए कि :

$$\tan^{-1}\left[\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}\right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1} x$$

जहाँ $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1$. 5

6. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :

(क) सिद्ध कीजिए कि : 5

$$\begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ca & cb & c^2+1 \end{vmatrix} = 1 + a^2 + b^2 + c^2$$

(ख) यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अन्तःखण्ड

क्रमशः a , b , c हैं और इसकी मूल-बिन्दु से दूरी p है,

तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{p^2}$. 5

(ग) यदि $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \pi$, तो सिद्ध कीजिए कि $x + y + z = xyz$. 5

(घ) अवकल समीकरण

$$\left[x \sin^2\left(\frac{y}{x}\right) - y \right] dx + x dy = 0,$$

$y = \frac{\pi}{4}$ यदि $x = 1$ को हल कीजिए। 5

(ङ) सिद्ध कीजिए कि : 5

$$\int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}$$

(च) $P(A \cup B)$ ज्ञात कीजिए यदि $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ और $P(A|B) = \frac{2}{5}$ है। 5

7. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

(क) (i) यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, तो सिद्ध कीजिए कि $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = 0$. 4

(ii) वक्र $y = x^3 + 2x + 6$ के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए, जो रेखा $x + 14y + 4 = 0$ के समांतर हैं। 4

(ख) (i) फलन $f(x) = \begin{cases} x & \text{यदि } x \leq 1 \\ 5 & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$

द्वारा परिभाषित है तो क्या $f, x = 0, x = 1$ तथा $x = 2$ पर संतत है ? 4

(ii) यदि $y = e^{a \cos^{-1} x}$, $-1 \leq x \leq 1$, तो

$$(1 - x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y = 0. \quad 4$$

8. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

(क) प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए : 8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & -5 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

(ख) रेखाओं $\frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}$ और

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-7}{1}$$

के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 8

9. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

(क) दिए गए आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ के लिए

सत्यापित कीजिए कि $A \cdot (\text{adj } A) = |A| I$ और इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 8

- (ख) सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लम्ब-वृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का $\frac{8}{27}$ होता है।

8

(English Version)

Instructions :

- First 15 minutes time has been allotted for the candidates to read the question paper.
- There are in all **nine** questions in this question paper.
- All questions are compulsory.
- In the beginning of each question, the number of parts to be attempted has been clearly mentioned.
- Marks allotted to the questions are indicated against them.
- Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
- Do not waste your time over a question you cannot solve.

1. Attempt **all** parts of the following :

- If L is a set of all straight lines in any plane and relation $R = \{(L_1, L_2) : L_1 \text{ is perpendicular to } L_2\}$ is defined in L . Select the correct answer from the following :

- R is reflexive
- R is symmetric
- R is transitive
- None of these

- If the order of matrices A and B are respectively $m \times n$ and $n \times p$, then the order of AB is :

1

- $p \times m$
- $n \times m$
- $m \times p$
- None of these

- The degree of the differential equation $xy \frac{d^2y}{dx^2} + x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - y \frac{dy}{dx} = 2$ is :

1

- 0
- 1
- 2
- 3

- The value of the expression $\hat{i} \cdot \hat{i} - \hat{j} \cdot \hat{j} + \hat{k} \cdot \hat{k}$ is :

1

- 0
- 1
- 2
- 3

- The value of $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}}$ will be :

1

- 0
- $\frac{\pi}{2}$
- $\frac{\pi}{4}$
- $\frac{\pi}{8}$

2. Attempt **all** parts of the following :

(a) The function $f: R \rightarrow R$, $f(x) = x^2 \forall x \in R$ is defined, then f is : 1

- (i) one-one onto
- (ii) many-one onto
- (iii) one-one, but not onto
- (iv) neither one-one nor onto

(b) If $f: R \rightarrow R$ where $f(x) = \cos x$ and $g: R \rightarrow R$ where $g(x) = x^2$, then prove that $fog \neq gof$. 1

(c) The principal value of $\cot^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ will be : 1

- (i) $\frac{\pi}{3}$
- (ii) $\frac{\pi}{6}$
- (iii) $\frac{2\pi}{3}$
- (iv) None of these

(d) Prove that the function $f(x) = |x|$ is continuous at $x = 0$. 1

(e) The area of ΔABC , whose vertices are $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$ and $C(2, 3, 1)$ in square units is : 1

- (i) $\frac{\sqrt{21}}{2}$
- (ii) $\frac{\sqrt{22}}{3}$
- (iii) $\frac{\sqrt{23}}{3}$
- (iv) None of these

3. Attempt **all** parts of the following :

(a) Solve $y - x \frac{dy}{dx} = a\left(y^2 + \frac{dy}{dx}\right)$. 2

(b) If $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$ are one-one, then prove that $gof: A \rightarrow C$ is also one-one. 2

(c) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, then

find AB and BA . 2

(d) Prove that $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$. 2

4. Attempt **all** parts of the following :

(a) If vertices of ΔABC are $A(2, -6)$, $B(5, 4)$ and $C(k, 4)$ and if the area of ΔABC be 35 square units, then prove that the value of k will be 12, -2. 2

(b) If $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4}$, then find the value of x . 2

(c) Find the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} 1 & x & yz \\ 1 & y & zx \\ 1 & z & xy \end{vmatrix}$$

- (d) Show that the semi-vertical angle of right circular cone of given total surface and maximum volume is $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$. 2

5. Attempt any **five** parts of the following :

- (a) Find the area between region of two circles $x^2 + y^2 = 4$ and $(x - 2)^2 + y^2 = 4$. 5

- (b) Find the integral $\int \frac{x^4 dx}{(x - 1)(x^2 + 1)}$. 5

- (c) Solve : $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$ 5

- (d) Show that : 5

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

- (e) Express the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$ 5

as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix.

- (f) Prove that : $\tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1} x$, 5
where $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1$.

6. Attempt any **five** parts of the following :

- (a) Prove that : 5

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ca & cb & c^2 + 1 \end{vmatrix} = 1 + a^2 + b^2 + c^2$$

- (b) If a, b, c are the intercepts on coordinate axes respectively by a plane and its distance from the origin is p , then prove that $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{p^2}$. 5

- (c) If $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \pi$, then prove that $x + y + z = xyz$. 5

- (d) Solve the differential equation

$$\left[x \sin^2 \left(\frac{y}{x} \right) - y \right] dx + x dy = 0,$$

$$y = \frac{\pi}{4} \text{ if } x = 1. \quad 5$$

- (e) Prove that $\int_0^{\pi/2} \log(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}$. 5

- (f) Find $P(A \cup B)$, if $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ and $P(A|B) = \frac{2}{5}$. 5

7. Attempt any **one** part of the following :

- (a) (i) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, then prove that
 $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = 0.$ 4
- (ii) Find the equations of the normals, to the curve $y = x^3 + 2x + 6$, which are parallel to the line $x + 14y + 4 = 0.$ 4
- (b) (i) Is the function f defined by
 $f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \leq 1 \\ 5 & \text{if } x > 1 \end{cases}$ continuous at
 $x = 0, x = 1$ and $x = 2$? 4
- (ii) If $y = e^{a \cos^{-1} x}$, $-1 < x < 1$, then
 $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y = 0.$ 4

8. Attempt any **one** part of the following :

- (a) By using elementary transformation, find the inverse of the following matrix : 8
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & -5 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$
- (b) Find the shortest distance between the lines $\frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}$ and $\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-7}{1}.$ 8

9. Attempt any **one** part of the following :

- (a) Verify : $A \cdot (\text{adj } A) = |A| I$ for the given matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ and find its inverse. 8
- (b) Prove that the volume of the largest right circular cone that can be inscribed in a sphere of radius R is $\frac{8}{27}$ of the volume of the sphere. 8